



## WORTH PERIPHERALS LIMITED

Regd. Office: 102, Sanskriti Apartment 44, Saket Nagar, Indore - 452018 (M.P.) India

CIN: L67120MP1996PLC010808

Phone: 0731-2560267, 2560348 Telefax: +91-731-2563425

E-mail: [investors@worthindia.com](mailto:investors@worthindia.com) Website: [www.worthindia.com](http://www.worthindia.com)

Date: 11<sup>th</sup> November, 2020

To,  
The Manager, Listing Department  
National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block,  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),  
Mumbai – 400051  
Maharashtra, India.

**NSE Symbol: WORTH**

**Subject:** Intimation to Stock Exchanges regarding publication of Financial Results in Newspapers

**Dear Sir/Madam,**

Pursuant to Regulation 30 and 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisements dated November 11, 2020, in Economics Times (English Newspaper) and chotha sansaar (Hindi Newspaper), publishing of the unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Six Months ended September 30, 2020 which were taken on record by the Board of Directors, in its meeting held on November 10, 2020.

Further, in terms of Regulation 46 of the Listing Regulations, the aforesaid financial results are also available on the website of the Company ([www.worthindia.com](http://www.worthindia.com)). We request you to take the information on your record for further needful.

Thanking you  
Yours faithfully

**FOR, WORTH PERIPHERALS LIMITED**

**AYUSHI TAUNK**  
**COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER**  
Encl. Clipping of Hindi & English Newspaper





## WORTH PERIPHERALS LIMITED

CIN : L67120MP1996PLC010808

Regd. Office : 102, Sanskriti Apartment, 44, Saket Nagar, Indore-452018 (M.P.) India

Phone: 0731-2560267, 2560348 | Telefax : +91-731-2563425

E-mail : investors@worthindia.com | Website : www.worthindia.com

(Rs. in Lakhs)

### EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2020

| No. | Particulars   | Standalone    |               |               |                 |               |                | Consolidated  |               |               |                 |               |                |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|     |   | Quarter Ended |               |               | Half Year Ended |               | Year Ended     | Quarter Ended |               |               | Half Year Ended |               | Year Ended     |
|     |   | 30.9.2020     | 30.9.2019     | 30.6.2020     | 30.9.2020       | 30.9.2019     | 31.3.2020      | 30.9.2020     | 30.9.2019     | 30.6.2020     | 30.9.2020       | 30.9.2019     | 31.3.2020      |
|     |   | Unaudited     | Unaudited     | Unaudited     | Unaudited       | Unaudited     | Audited        | Unaudited     | Unaudited     | Unaudited     | Unaudited       | Unaudited     | Audited        |
| 1   | Total Income from operations  | 3867.49       | 3363.95       | 3495.15       | 7362.64         | 6990.24       | 13274.45       | 5319.15       | 4482.42       | 4648.20       | 9967.35         | 9162.94       | 17548.27       |
| 2   | Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)  | 557.42        | 674.61        | 844.70        | 1402.12         | 1060.42       | 1711.90        | 724.48        | 742.48        | 928.89        | 1653.37         | 1199.33       | 1990.16        |
| 3   | Net Profit for the period before tax (after Exceptional Items)                                      | 557.42        | 674.61        | 844.70        | 1402.12         | 1060.42       | 1711.90        | 724.48        | 742.48        | 928.89        | 1653.37         | 1199.33       | 1990.16        |
| 4   | Net Profit for the period after tax attributable to   |               |               |               |                 |               |                |               |               |               |                 |               |                |
|     | Owners of the company   | 437.24        | 507.10        | 593.58        | 1030.82         | 879.17        | 1400.03        | 437.24        | 507.10        | 593.58        | 1030.82         | 879.17        | 1400.03        |
|     | Non controlling interest  | -             | -             | -             | -               | -             | -              | 80.54         | 32.69         | 40.59         | 121.13          | 66.93         | 133.26         |
|     | <b>Total</b>  | <b>437.24</b> | <b>507.10</b> | <b>593.58</b> | <b>1030.82</b>  | <b>879.17</b> | <b>1400.03</b> | <b>517.78</b> | <b>539.79</b> | <b>634.17</b> | <b>1151.95</b>  | <b>946.10</b> | <b>1533.29</b> |
| 5   | Total comprehensive income attributable to  |               |               |               |                 |               |                |               |               |               |                 |               |                |
|     | Owners of the company   | 436.87        | 506.61        | 592.96        | 1029.82         | 878.18        | 1398.04        | 436.87        | 506.61        | 592.96        | 1029.82         | 878.18        | 1398.04        |
|     | Non Controlling Interest  | -             | -             | -             | -               | -             | -              | 80.54         | 32.69         | 40.59         | 121.13          | 66.93         | 133.26         |
|     | <b>Total</b>  | <b>436.87</b> | <b>506.61</b> | <b>592.96</b> | <b>1029.82</b>  | <b>878.18</b> | <b>1398.04</b> | <b>517.41</b> | <b>539.30</b> | <b>633.55</b> | <b>1150.95</b>  | <b>945.11</b> | <b>1531.30</b> |
| 6   | Paid up equity share capital (face value Rs.10 Per share)   | 1575.10       | 1575.10       | 1575.10       | 1575.10         | 1575.10       | 1575.10        | 1575.10       | 1575.10       | 1575.10       | 1575.10         | 1575.10       | 1575.10        |
| 7   | Reserves excluding Revaluation Reserve (as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year) | -             | -             | -             | -               | -             | 7557.62        | -             | -             | -             | -               | -             | 7557.62        |
| 8   | Earnings per share (Rs.10/- Each)   |               |               |               |                 |               |                |               |               |               |                 |               |                |
|     | -Basic  | 2.77          | 3.22          | 3.77          | 6.54            | 5.58          | 8.89           | 2.77          | 3.22          | 3.77          | 6.54            | 5.58          | 8.89           |
|     | -Diluted  | 2.77          | 3.22          | 3.77          | 6.54            | 5.58          | 8.89           | 2.77          | 3.22          | 3.77          | 6.54            | 5.58          | 8.89           |

- The above financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles prescribed under section 133 of the companies Act 2013 read with the relevant rules issued there under, IND-AS and other accounting principles generally accepted in India.
- The above financial results for the quarter and half year ended 30th September 2020 which have been subjected to Limited Review by Statutory Auditors of the company were reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently by the Board of Directors at its meeting held on 10th Nov, 2020 in terms of regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulation, 2015.
- The Company has identified "Manufacture and Sale of Corrugated Boxes" as the single operating segment for the continued operations in the Financial Statement as per Ind AS -108-Operating Segments.
- Previous year/ period figures have been re-grouped, re-arranged and restated wherever considered necessary.
- The Board of Directors declared Interim Dividend for the Financial Year 2020-21 @10% i.e. Re. 1/- (Rupee One) per Equity Share of Face value of Rs. 10/- each and fixed 20th November, 2020 as the record date for determining the entitlement of the shareholders for the payment of aforesaid Interim Dividend.

एक नजर

**म्यानमार में हुए आम चुनावों में राष्ट्रपति जामिं राय खून यु को बहुमत मिलाना तय**  
 म्यानमार में हुए आम चुनावों में लोकप्रतिक आंदोलन के नेता और प्रधान मंत्री बन चुके खून यु को बहुमत मिलाना तय हो गया है। निर्वाचन आयोग ने म्यानमार की 100 सीटों वाले संसदीय सभ में खून यु को बहुमत मिलाना तय कर दिया है। खून यु को बहुमत मिलाना तय कर दिया है, जो आम जनता के बीच लोकप्रतिक आंदोलन के नेता हैं। खून यु को बहुमत मिलाना तय कर दिया है, जो आम जनता के बीच लोकप्रतिक आंदोलन के नेता हैं।

**नेपाल में गौरी की आजादी के उत्सव**  
 नेपाली भाषा में विश्व रचना का जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव के अवसर पर नेपाली भाषा में विश्व रचना का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उत्सव के अवसर पर नेपाली भाषा में विश्व रचना का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उत्सव के अवसर पर नेपाली भाषा में विश्व रचना का जन्मदिन मनाया जा रहा है।

**राष्ट्रपति पद पर मनुमोहन जी टंडन पर दृष्टी**  
 मनुमोहन जी टंडन पद पर दृष्टी मानी जा रही है। मनुमोहन जी टंडन पद पर दृष्टी मानी जा रही है। मनुमोहन जी टंडन पद पर दृष्टी मानी जा रही है। मनुमोहन जी टंडन पद पर दृष्टी मानी जा रही है।

**अमेरिका के चीन के साथ कार्रगीरों पर लगाया प्रतिबंध**  
 अमेरिका के चीन के साथ कार्रगीरों पर लगाया प्रतिबंध मनाया जा रहा है। अमेरिका के चीन के साथ कार्रगीरों पर लगाया प्रतिबंध मनाया जा रहा है। अमेरिका के चीन के साथ कार्रगीरों पर लगाया प्रतिबंध मनाया जा रहा है।

**अनुभव-370 पर जलद न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका**  
 अनुभव-370 पर जलद न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा रही है। अनुभव-370 पर जलद न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा रही है। अनुभव-370 पर जलद न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा रही है।

एससीओ समिटि: जिनपिंग और इमरान के सामने बोले पीएम मोदी एक आतंकवाद के खिलाफ, एक-दूसरे की अखंडता का सम्मान कर सकें

पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के बीच मुझे एक बात याद है कि हम 150 से ज्यादा देशों में अखंडता बना रहे हैं।

नई दिल्ली, 10 नवंबर (एनआई) - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक संवाद कार्यक्रम में कहा कि महामारी के बीच मुझे एक बात याद है कि हम 150 से ज्यादा देशों में अखंडता बना रहे हैं। मोदी ने कहा कि महामारी के बीच मुझे एक बात याद है कि हम 150 से ज्यादा देशों में अखंडता बना रहे हैं।



गुजिया को दिया मंत्रोद्य

नई दिल्ली, 10 नवंबर (एनआई) - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक संवाद कार्यक्रम में कहा कि महामारी के बीच मुझे एक बात याद है कि हम 150 से ज्यादा देशों में अखंडता बना रहे हैं। मोदी ने कहा कि महामारी के बीच मुझे एक बात याद है कि हम 150 से ज्यादा देशों में अखंडता बना रहे हैं।

एक अर्थशास्त्र, वे जैसा हुए शरारति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक संवाद कार्यक्रम में कहा कि महामारी के बीच मुझे एक बात याद है कि हम 150 से ज्यादा देशों में अखंडता बना रहे हैं। मोदी ने कहा कि महामारी के बीच मुझे एक बात याद है कि हम 150 से ज्यादा देशों में अखंडता बना रहे हैं।

दुप ने अभी घोषित नहीं की है फाटी, उधर सत्ता बदलाव की अपनी योजना पर आम बड़े बाइंडन

नई दिल्ली, 10 नवंबर (एनआई) - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक संवाद कार्यक्रम में कहा कि महामारी के बीच मुझे एक बात याद है कि हम 150 से ज्यादा देशों में अखंडता बना रहे हैं। मोदी ने कहा कि महामारी के बीच मुझे एक बात याद है कि हम 150 से ज्यादा देशों में अखंडता बना रहे हैं।

डीसीटीओ का बला, वारी बने आम जनता के हक पर नवीं ही बुझा देगी

नई दिल्ली, 10 नवंबर (एनआई) - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक संवाद कार्यक्रम में कहा कि महामारी के बीच मुझे एक बात याद है कि हम 150 से ज्यादा देशों में अखंडता बना रहे हैं। मोदी ने कहा कि महामारी के बीच मुझे एक बात याद है कि हम 150 से ज्यादा देशों में अखंडता बना रहे हैं।

**WORTH PERIPHERALS LIMITED**  
 CIN: L57120MP1998PL001808  
 Regd. Office: 102, Saket Apartment, Indira Nagar, New Delhi-110028 (M.P.) India  
 Phone: +91 731-2560267, 25603348 | Website: +91 731-2563442  
 E-mail: investors@worthindia.com | Telnet: www.worthindia.com

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2020**

| Sl. No. | Particulars   | 3 Months Ended |            |            |               | 6 Months Ended |            |  |  |
|---------|---|----------------|------------|------------|---------------|----------------|------------|--|--|
|         |   | Quarter Ended  | Half Year  | Year Ended | Quarter Ended | Half Year      | Year Ended |  |  |
|         |   | Rs. 00,000     | Rs. 00,000 | Rs. 00,000 | Rs. 00,000    | Rs. 00,000     | Rs. 00,000 |  |  |
| 1       | Total Income from Operations  | 387.48         | 1303.96    | 1455.15    | 728.24        | 1650.29        | 31274.45   |  |  |
| 2       | Net Profit for the period (After Exceptional Items)                       | 357.42         | 874.61     | 864.10     | 1402.12       | 1658.42        | 1711.58    |  |  |
| 3       | Net Profit for the period before Tax (After Exceptional Items)            | 357.42         | 874.61     | 864.10     | 1402.12       | 1658.42        | 1711.58    |  |  |
| 4       | Net Profit for the period after tax attributable to Owners of the company | 49.24          | 507.10     | 550.58     | 1030.81       | 879.17         | 1403.00    |  |  |
| 5       | Total Comprehensive Income attributable to Owners of the company          | 49.24          | 507.10     | 550.58     | 1030.81       | 879.17         | 1403.00    |  |  |
| 6       | Total Comprehensive Income attributable to Owners of the company          | 49.24          | 507.10     | 550.58     | 1030.81       | 879.17         | 1403.00    |  |  |
| 7       | Reserves excluding Provisional Reserve (Rs. 10 Crores)                    | 277.32         | 322.17     | 654.58     | 888.27        | 322.17         | 654.58     |  |  |
| 8       | Earnings per share (Rs. 10/- Each)  | 2.77           | 3.22       | 3.17       | 6.54          | 5.88           | 3.77       |  |  |
| 9       | Dividend  | 2.77           | 3.22       | 3.17       | 6.54          | 5.88           | 3.77       |  |  |

**SYSTEMATIX CORPORATE SERVICES LTD.**  
 CIN: L91990MP1985PL002969  
 Regd. Off: 206-207, Bansal Trade Centre, 56/1/5, M.G. Road, Indore - 452001 (M.P.) | Email: secretariat@systematixgroup.in | Website: www.systematixgroup.in  
 Corp. Off: The Capital, 2C Wing, 100, Park Road, Indore - 452005, Madhya Pradesh, India. Ph: (022) 66158800

**STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2020** (Rs. in Lakhs except earning per share data)

| Sl. No. | Particulars   | 3 MONTHS ENDED |            |            | 6 MONTHS ENDED |            |            | 12 MONTHS ENDED |            |            |
|---------|---|----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
|         |   | 30/09/2020     | 30/06/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2020     | 30/06/2020 | 30/09/2019 | 31/03/2020      | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
| 1       | Total Income from Operations  | 573.75         | 40.07      | 51.91      | 713.82         | 190.44     | 480.30     | 1,940.98        | 1,281.56   | 2,855.28   |
| 2       | Net Profit / (Loss) for the period before Tax & Exceptional Items   | 452.67         | (137.38)   | (189.56)   | 314.79         | (351.51)   | (398.64)   | 518.44          | (109.50)   | (404.54)   |
| 3       | Net Profit / (Loss) for the period before Tax (After Exceptional Items)   | 452.67         | (137.38)   | (189.56)   | 314.79         | (351.51)   | (398.64)   | 518.44          | (109.50)   | (404.54)   |
| 4       | Net Profit / (Loss) for the period after Tax (After Exceptional Items)  | 452.78         | (136.66)   | (190.75)   | 316.12         | (352.47)   | (377.80)   | 533.28          | (113.39)   | (429.12)   |
| 5       | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (After Tax) and Other Comprehensive Income (After Tax) | 452.78         | (136.66)   | (190.75)   | 316.12         | (352.47)   | (377.80)   | 533.28          | (113.39)   | (429.12)   |
| 6       | Equity Share Capital  | 1298.03        | 1298.03    | 1298.03    | 1298.03        | 1298.03    | 1298.03    | 1298.03         | 1298.03    | 1298.03    |
| 7       | Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (not audited)  | 3.49           | (1.08)     | (1.47)     | 2.44           | (2.72)     | (2.91)     | 4.11            | (0.87)     | (3.24)     |
| 8       | Dividend  | 3.49           | (1.08)     | (1.47)     | 2.44           | (2.72)     | (2.91)     | 4.11            | (0.87)     | (3.24)     |

**NOTES:** (1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with SEBI under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Half Yearly Unaudited Financial Results is available on the websites of Bombay Stock Exchange (BSE) of the listings BSE.com & Company's website: www.systematixgroup.in  
 Date: 10/11/2020  
 On behalf of the Board of Directors: Chandra Prakash Khanna, Chairman & Managing Director, DIN: 00016373